



रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा
VII / सिल्वरज़ोन / २०१७ -१८
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

प्र०. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। यह 1.3 अरब निवासियों के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसँख्या वाला देश है और 26,41,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुख्य भाषा चीनी है। जिसका पारम्परिक और आधुनिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी है। यह विश्व का सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक देश है।

(1) विश्व का सर्वाधिक जनसँख्या वाला देश कौन सा है ?

(क) भारत (ख) चीन (ग) पाकिस्तान (घ) रूस

(2) क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है ?

(क) कनाडा (ख) भारत (ग) चीन (घ) रूस

(3) बीजिंग किस देश की राजधानी है ?

(क) चीन (ख) जापान (ग) पाकिस्तान (घ) नेपाल

(4) चीन की मुख्य भाषा कौन सी है ?

(क) चीनी (ख) पंजाबी (ग) उर्दू (घ) इनमें से कोई नहीं

(5) निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थाई सदस्य है ?

(क) भारत (ख) कनाडा (ग) चीन (घ) पाकिस्तान

(6) केवल फल खाकर रहने वाला

(क) शाकाहारी (ख) मासाहारी (ग) फलाहारी (घ) सर्वाहारी

(7) झाँसी की रानी के बचपन का नाम था -

(क) नाना (ख) मनु (ग) वीरांगना (घ) भवानी

(8) रात- ----- सही शब्द युग्म है -

(क) अँधेरा (ख) उजाला (ग) दिन (घ) रौशनी

(9) 'प्रतिदिन होने वाला' वाक्यांश के लिए एक शब्द है -

(क) रोजाना (ख) दैनिक (ग) रोज (घ) मासिक

(10) मैं पिकनिक जाऊँगी। इस वाक्यांश का काल है -

(क) भूतकाल (ख) भविष्यत् काल (ग) वर्तमान (घ) पूर्णभूत

(11) वह ----- टहलने जाता है। रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रियाविशेषण होगा -

(क) रातभर (ख) बार-बार (ग) प्रतिदिन (घ) झटपट

(12) 'हनुमान' का पर्यायवाची शब्द है -

(क) पवनपुत्र (ख) देव (ग) भूधर (घ) संजीवनी बूटी

(13) 'वरदान' का विलोम है -

(क) वर (ख) आशीर्वाद (ग) स्नेह (घ) अभिशाप

(14) 'ठंडा- गरम' समास है -

(क) द्वन्द्वं (ख) तत्पुरुष (ग) द्विगु (घ) बहुव्रीहि

(15) साधु के लिए भोजन लाओ। इस वाक्य में कारक है -

(क) कर्ता (ख) कर्म (ग) अपादान (घ) सम्प्रदान

(16) 'प्रजा' का बहुवचन है -

(क) प्रजे (ख) प्रजाएँ (ग) प्रजाजन (घ) प्रजागण

(17) वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ----- होती है।

(क) वर्णमाला (ख) वाक्य (ग) शब्द (घ) संगीत

(18) 'काल' शब्द का अर्थ है -

(क) मृत्यु (ख) समय (ग) कला (घ) क एवम ख दोनों

(19) 'पैन' कैसा शब्द है-

(क) विदेशी (ख) देशी (ग) तत्सम (घ) तद्भव

(20) कौन सा शब्द भाववाचक है -

(क) बुढ़ापा (ख) क्रोधी (ग) आदमी (घ) इनमे से कोई नही